STERLING TOOLS LIMITED

CIN: L29222DL1979PLC009668

WORKS: 5-A DLF Industrial Estate Faridabad - 121 003 Harvana India Tel: 91-129-227 0621 to 25/225 5551 to 53

Fax . 91-129-227 7359

E-mail: sterling@stlfasteners.com website : stlfasteners.com



By NEAPS

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza",

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai-400051

Scrip Code: STERTOOLS

By Listing Centre

General Manager

Corporate Relationship Department

Bombay Stock Exchange Limited

1st Floor, P. J. Towers Dalal Street, Fort

Mumbai - 400001

Security Code No. 530759

Date: 11th May 2024

Sub: Newspaper Publication of Audited Financial Results for Q4 and Financial year ended

31st March 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Please find enclosed herewith the published extracts of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for Q4 and financial year ending on 31st March 2024 published in English and Regional (Hindi) newspaper on 11th May, 2024, for your information and records.

Sincerely

Yours truly,

For Sterling Tools Limited

Abhishek Chawla

Company Secretary & Compliance Officer

M.No- A34399

FINANCIAL EXPRESS

Continue From Previous Page

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE beginning on page 238 of the RHP.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Offer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 25 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER BEELI/M/E

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: +91-79-48407357 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah

CIN: U67190GJ2020PTC114322

Place: Mumbai

Date: May 10, 2024

REGISTRAR TO THE OFFER Bigshare Services Pvt. Ltd.

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No S6-2. 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel No: 022 - 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail:

investor@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Babu Rapheal C

SEBI Registration Number: INR000001385

RULKA ELECTRICALS LIMITED Mrs. Kejal Niken Shah

A - 20, Shiva Industrial Estate Co. Ltd., Lake Road, Near Tata Power, Bhandup West, Mumbai City, Maharashtra-400078, India. Tel. No.: +022 41276806, 022 49742572 E-mail: cs@replservices.com

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Website: www.replservices.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.replservices.com. the website of the BRLM to the Offer at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Rulka Electricals Limited, Telephone+022 41276806, 022 49742572; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91-79-48407357 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: 079 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, RULKA ELECTRICALS LIMITED Sd/-

Rupesh Laxman Kasavkar **Managing Director**

Disclaimer: Rulka Electricals Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Mumbai on May 09, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.





MUTHOOT MERCANTILE LIMITED

Corporate Identity Number: U65921KL1997PLC011260; PAN: AABCM5297K, Website: www.muthootenterprises.com; Email: info@muthootenterprises.com; Registered Office: 1st Floor, North Block, Muthoot Floors, Opposite W&C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram 695 014, Kerala, India; Telephone: +91-471-277-4800; Company Secretary and Compliance Officer: Neethu C. Biju; E-mail: cs@muthootenterprises.com; Telephone: +91-471-277-4800;

Chief Financial Officer: Rajeev M R; E-mail: cfo@muthootenterprises.com; Telephone: +91-0471-277-4800;

NOTICE TO INVESTORS ADDENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 02, 2024, ISSUED TO THE PUBLIC ("ADDENDUM")

This is with reference to the prospectus dated May 02, 2024 ("Prospectus"), filed with the Registrar of Companies, Kerala at Kochi ("RoC"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the BSE Limited ("Stock Exchange") in relation to the Issue. In this regard, potential bidders may note the following: The redemption maturity dates for the Series VII and VIII as specified in Prospectus should be read as Thursday, May 27, 2027

instead of Wednesday, May 26, 2027. For further details of the day count convention please refer to Annexure I page no 272 of the

All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Prospectus.

Disclaimer: Investors proposing to participate in the Issue, should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investments in this Public Issue of NCDs involves a high degree of risk for details relating to the same, please refer to Prospectus dated May 02, 2024 and the section on "Risk Factors" beginning on page 15 of the Prospectus.

Date: May 10, 2024 Place: Thiruvananthapuram

STERLING TOOLS LIMITED

Registered Office: UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI-110025 CIN: L29222DL1979PLC009668, Website.: www.stlfasteners.com Ph.: 0129-2270621-25, Email Id.: csec@stlfasteners.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024**

		STANDALONE				(₹ in Lakhs except per share data)			
SI. No.		Quarter Ended Year Ended			Quarte	Ended	Year Ended		
	Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	16,702.88	15,869.91	61,369.79	60,353.83	27,019.13	21,266.70	93,851.11	77,487.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	1,144.12	5,174.69	5,327.65	2,131.74	1,327.65	7,180.02	5,988.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	814.89	5,214.40	5,671.91	2,131.74	988.42	7,219.73	6,332.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,200.63	526.10	3,884.53	4,142.95	1,625.04	777.86	5,536.50	4,787.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	911.16	580.78	3,538.31	4,193.28	1,332.42	830.71	5,188.88	4,838.95
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Other Equity			42,442.02	39,424.50		16	43,990.37	39,322.26
8	Earnings Per Share (Rs. 2/- each)- (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	3.33 3.33	1.46 1.46	10.78 10.77	11.50 11.50	4.51 4.51	2.16 2.16	15.37 15.35	13.29 13.29

Notes:

Date: 10th May, 2024

Place: Faridabad

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and Financial Year ended on 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the company is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stlfasteners.com).
- 2. The standalone & consolidated financial results of Sterling Tools Limited (the 'Company') for the guarter and Financial year ended 31 March 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th May 2024. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified Audit Opinion on these financial Results.
- 3. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), as specified under section 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended).
- 4. The Company is primarily in the business of manufacturing of fasteners (i.e. automotive components) which falls within a single business segment in terms of the Indian
- 5. The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of Rs. 2/- per Equity share of Face value of Rs. 2/- each for the Financial year 2023-24. For and on behalf of the Board of Directors

Accounting Standard 108, 'Operating Segments' and hence no additional disclosures have been furnished.

Sterling Tools limited Anil Aggarwal Chairman & Managing Director

AICICI Securities Primary Dealership Limited

ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai-400 020 CIN: U72900MH1993PLC131900, GST:: 27AAACl0995H1ZG Audited Financial Results for the year ended March 31, 2024 Balance Sheet at March 31, 2024 (₹ in million)

SOL	JRCES OF FUNDS	
1	Shareholder's funds A Share capital 3 Reserves and surplus	1,563.4 16,957.4
	Loan funds	
2-77-116-6	A Secured loans	2,75,812.2
I	3 Unsecured loans	43,769.0
	(of which call/notice/term money	
	borrowings of (34,070.0 million)	
	200 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	3,38,102.0
APP	PLICATION OF FUNDS	1200000
	1 Fixed assets	310.0
- 2	2 Investments -	
	3 Current assets, loans & advances	
	Current assets	
	A I Stock-in-trade	
	(i) Government securities (including T-Bills & CMBs)	2,87,231.4
	(ii) Corporate bonds & debentures	23,097.6
	(iii) Commercial Paper & Certificates of Deposit	5,605.9
	(iv) Equity Shares	2.8
		3,15,937.7
	II Other Current assets	23,064.6
	B Loans and advances	

(of which call money lendings NIL) 18,696.1 3,57,698.4 Less: Current liabilities (19,444.7) 3,38,253.7 454.1 4 Non-Current assets (915.8)Less: Non-Current Liabilities (461.7) 3,38,102.0

1 Income A Interest & dividend income

	C Trading Profit	4,932.1
	D Income from services	258.8
	E Other Income	0.1
		26,289.8
2	Expenses	
	A Interest	18,714.4
	B Administrative & employee expenses	1,284.0
	C Other expenses	436.3
		20,434.7
3	Profit before tax	5,855.1
4	Tax Expense	1,493.4
5	Profit for the year	4,361.7
Ot	ther Comprehensive Income	
1	Items that will not be reclassified to profit	
	& loss (net of tax)	3.3
2	Items that will be reclassified to profit & loss (net of tax)	
	Total Comprehensive Income for the year (comprising	
	Profit/ (loss) and Other Comprehensive Income)	4,365.0
	Regulatory Capital required *	14,317.0
	Actual Capital (including eligible Tier II)	19,030.0

B Discount

- 1 The results have been approved at the Board Meeting held on April 19, 2024 2 The securities held as stock-in-trade are fair-valued
- 3 Net borrowings in call/notice: average ₹18,335.22 million; peak ₹48,655.0 million
- 4 Leverage ratio: average 17.26 times; peak 22.56 times 5 CRAR (Quarterly)*

7-11	THE PARTY OF THE
Jun 30, 2023	31.4%
Sep 30, 2023	29.3%
Dec 31, 2023	29.1%
Mar 31, 2024	26.6%

6. Details of Issuer composition of investments in non-government securities at March 31, 2024

Issuer"	Amount*	Extent of private placement	Extent of 'unlisted securities'
PSUs	501.1	501.1	Nil
FIs	5,904.3	5,904.3	Nil
Banks	5,255.9	5,255.9	Nil
Other PDs	Nil	Nil	Nil
Private corporates	Nil	Nil	Nil
Subsidiaries/ Joint ventures	Nil	Nil	Nil
Others ** Provision held towards	17,042.2	17,042.2	Nil
depreciation	Nil	Nil	Nil
Total	28,703.5	28,703.5	Nil

All the investments in the above non-government securities are rated above investment

Others include investments in Non-Banking Financial Companies and Housing Finance Companies

FINOLEX INDUSTRIES LIMITED CIN L40108PN1981PLC024153

amended from time to time.

Registered Office: Gat No. 399, Village Urse, Taluka Maval, Dist. Pune - 410 506 Tel No.: 02114-237251 E-mail: investors@finolexind.com Website: www.finolexpipes.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF) Notice is hereby given to shareholders of the Company and published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the Rules') as

The Act and Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend and transfer of all shares in respect of which Dividend has not been claimed by the shareholders for seven consecutive years or more shall be liable for transfer to the IEPF Authority. In compliance with the requirements as set out in the rules, the Company has sent separate communication to the concerned individual shareholder(s) whose share(s) and dividend(s) are liable to be transferred to the IEPF Authority under the Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded complete details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at https://www.finolexpipes.com/investors/compliance-report/ and shareholder(s) are requested to refer the aforesaid link to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEFP Notice is given to all such shareholder(s) to make an application to the

Company/ M/s. Kfin Technologies Limited ('RTA' of the Company) with a request letter and requisite forms (available on the website of the Company at https://www.finolexpipes.com/investors/investorsrelations-centre/and RTA at https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc/isrforms.aspx) duly signed by all holders and in case of joint holder(s), by first joint holderwith proper identification proofs for claiming the unclaimed dividend in order to avoid the transfer of dividend and shares to the IEPF Authority.

In case the Company/ RTA does not receive any communication by Saturday, September 14, 2024, the Company in compliance with IEPF Rules shall transfer the said shares to the IEPF Authority without any further notice in this regard, including all the benefits accruing on such

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the said Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company or M/s. KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032; Tol Free No: 1-800-309-4001; Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

For Finolex Industries Limited

Ajit Venkataraman Managing Director DIN: 07289950

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

3 Dr Lal PathLabs

Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram – 122 001, Haryana Phone: +91 124 3016500 | Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED/AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31 MARCH, 2024

			(Rs. in millio	n except as stated
S. No.	Particulars	3 months ended 31 March, 2024	Year ended 31 March, 2024	Corresponding 3 months ended 31 March, 2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,638	22,958	5,052
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,199	5,055	832
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,199	5,055	832
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	858	3,623	569
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	849	3,617	549
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	835	835	834
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)			
7	(a) Basic (In Rs.)	10.13	43.05	6.84
	(b) Diluted (In Rs.)	10.12	42.98	6.82

*Before non-controlling Interest

i. Key numbers of the Standalone Results are as under:

(Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended 31 March, 2024	Year ended 31 March, 2024	Corresponding 3 months ended 31 March, 2023
NO.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	4,949	20,269	4,426
2	Profit for the period before Tax	1,205	5,160	981
3	Profit for the period after Tax	895	3,844	714
4	Total comprehensive income	891	3,841	698

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10 May, 2024.
- The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.
- The consolidated other equity(excluding revaluation reserve) as on 31 March 2024 is 17,658 Million
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and year ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman**

Place: New Delhi

Date: 10 May, 2024





Din No: 00027214

New Delhi

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2024

18,661.6 2,437.2

25.42%

Pune, May 10, 2024

Return on Net Worth

*Calculated as per Master Direction - Standalone Primary Dealers (Reserve Bank) Directions, 2016 dated August 25, 2016 issued by the Reserve Bank of India. (Ref. RBI circular no. IDMD.PDRS.No.03/03.64.00/2003-04)

(₹ in million)

Issuer'	Amount*	Extent of private placement	Extent of 'unlisted securities'
PSUs	501.1	501.1	Nil
Fls	5,904.3	5,904.3	Nil
Banks	5,255.9	5,255.9	Nil
Other PDs	Nil	Nil	Nil
Private corporates	Nil	Nil	Nil
Subsidiaries/ Joint ventures	Nil	Nil	Nil
Others ^{sr}	17,042.2	17,042.2	Nil
Provision held towards	1100000	200	
depreciation	Nil	Nil	Nil
Total	28,703.5	28,703.5	Nil

Does not include equity and preference shares

financialexp.epa

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ रित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत

टी.ए. सं. 811 / 2023 दिनांक 18-01-2024 भारतीय स्टेट बैंक

^{ी किस्}व गोल्ड कोस्ट इंटरनेशनल एवं अन्य प्रतिवादी

।, गोल्ड कोस्ट इंटरनेशनल इसके प्रोपराईटर नरेश क्मार जैन के माध्यम से ए-352 तीसरी मंजिल मीरा बाग सुंदर विहार दिल्ली–87 **और** केएच न 17 / 24 / 2-3 गांव रणहोला दिल्ली - 41 2. नरेश कुमार जैन पुत्र श्री जवाहर लाल जैन ए-352 तीँसरी मंजिल मीरा बाग सुंदर विहार दिल्ली – 87 <u>और:</u> प्लॉट नं. 1032 पहली मंजिल धीरनी रोड मुंडका दिल्ली – 41

 कोमल जैन पत्नी नरेश कुमार जैन, ए-352 fीसरी मंजिल मीरा बाग सुंदर विहार दिल्ली – 87 जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये 62,21,654.89 (रूपये बासठ लाख इक्कीस इंजार छ सौ चौवन और पैसे नवासी मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विद्वापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 20-05-2024 को पूर्वा. 10.** 30 बजे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समझ उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मौतिक के माध्यम सं लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:--सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। (iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स, लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत 18 जनवरी, 2024 को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार,

2002 की घारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना।

कर्जदार एवं गारंटर का नाम

मकान नं. एफ-7, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरजेड-डी-2 / 230, तीसरा तल, गली नं.05,

महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली—110045.

दिनांक: 10.05.2024

स्थानः नई दिल्ली

कर्जदार का नामः

गारंटर का नामः

श्री पवन कुमार नागी

पुत्र श्री हरि कृष्ण नागी

(1) श्री राजेश कुमार नागी

पुत्र श्री हरि कृष्ण नागी एवं

पत्नी श्री राजेश कुमार नागी

(2) श्रीमती सीमा नागी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

शाखा कार्यालयः ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020 वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्ततन (सरफेसी) अधिनियम,

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे

वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भूगतान करने में असफल रहते हैं तो

बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या

किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति

लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पटटे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

सम्पत्ति के मालिकः

श्रीमती सीमा नागी

आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियाँ को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की

श्री राजेश कुमार नागी एवं

कॉलोनी, नई दिल्ली-110045.

प्रतिभूत सम्पत्ति

का विवरण

पताः पलैट नं.302, तीसरा तल, पीछे की ओर

प्लॉट नं, आरजेडएच-2 / 64-ए, खसरा नम्बर

79 / 24, गाँव-पालम, महावीर एन्क्ले

कुल भूमि माप पर फ्लैट — 40.00 वर्ग गज

पूर्वः आरजेड-एच-2 / 64-लक्ष्मी निवास

पश्चिमः आरजेड-एच-2 / 65-राजीव रंजन

सीमाएँ: उत्तर: सड़क दक्षिण: गली

है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुभाग अधिकारी, डीआरटी-11, दिल्ली

6-30/31, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली 110005 फोन: 91-8929594461, ईमेल: bom1933@mahabank.co.in; brmgr1933@mahabank.co.in parelier on da

> मामला सं. सी.पी. नं. (आईबी)-658/2024 श्रीमती अरविन्दर कौर, पत्नी श्री रविन्दर पॉल सिंह, पर्सनल गारंटर [बाबा एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के लिये] 2/12, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

प्रधान कायालयः लोकमगल, 1501, ाशवाजानगर, पुण-411005

साथ ही: एच. नं. ७०२, रामेश्वर नगर, आजादपुर, दिल्ली-110033 बैंक ऑफ महाराष्ट्र विनीय केडीटर/आवेदक अरविन्दर कौर

इस कारण बताओ सूचना पर ध्यान दें कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ-III, दिल्ली ने आदेश तिथि 3.5.2024 के माध्यम से आप संबोध्य को 28.5.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ-III, दिल्ली, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष व्यक्तिगत अथवा अपने कानूनी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है अन्यथा मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। कृत्ते, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, परिसम्पत्ति वसूली शाखा, करोल बाग, दिल्ली

SOUTH Bank

शाखा का पताः बी-104, बिपिन चंद्र पाल मार्ग, ब्लॉक-बी, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली, दिल्ली 110019 शाखा मेल आईडी: br0358@sib.co.in

बैंक में बंधक सोने की नीलामी

चूंकि, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने बिक्री नोटिस जारी कर उधारकर्ता से उसके द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋण का बकाया चुकाने का आह्वान किया है। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता सोने के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी **"जैसा है**, जो है के आधार पर" और "जो कुछ है के आधार पर") एवं बिना सहारा के आधार" प सख्ती से करेगा। उधारकर्ता **श्री जोबिन पी जॉय** खाता संख्या 0358653000000526 व लिए नीलामी **22.05.2024** को दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऑक्शन टाइगर से 6352632523 पर संपर्क करें।

हस्ता / — प्रबंधक द साउथ इंडियन बैंक लि.

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, २००२ की

मांग सूचना १३(२)

13(2) सूचना की तिथि एवं राशि

13(2) सूचना दिनांक

31/07/2023

एन.पी.ए.: 29/07/2023

₹.17,94,007/-

(सत्रह लाख चौरानबे हजार

सात रूपये मात्र)

इस सूचना की तारीख

31.07.2023 के अनुसार देय

जो 31.07.2023 को देय मुलध-

और ब्याज को दर्शाता है)

1.07.2023 से बाद के व्याज

साथ और उस पर खर्च।

प्राधिकृत अधिकारी,

"IMPORTANT"

vyniist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

एच एस बी लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एच एस बी लीजिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रिज.कार्यालय: मकान नंबर 1553, सेक्टर 38-बी, चंडीगढ, भारत

सीआईएनः यू65921सीएच1992पीटीसी012470 ईमेलः HSBLEASING@GMAIL.COM सार्वजनिक सूचना

मास्टर निर्देश आरबीआई / डीओआर / 2023/24/106/DoR-FIN-REC. क्रमांक 45 /03.10.119/2023–24 दिनांक 1 अक्टूबर 2023 के पैरा 42.3.1 के अनुपालन में, भारतीय रिजर्व बैंक (गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनी—स्केल आधारित विनियमन दिशानिर्देश, 2023 इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि एच एस बी लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक, एक कंपन जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और एक गैर–जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी के रू में पंजीकरण संख्या बी–06.00168 के प्रमाण पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत है,और जिसक म.सं.1553, सेक्टर 38–बी, चंडीगढ़, भारत में पंजीकृत कार्यालय है यह कंपनी का पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए मौजूद रोयरधारकों से शेयर खरीद रहा है और कंपनी के मौजूदा प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, स्थानांत[्] मौजूदा व्यावसायिक गतिविधि के संचालन को बढ़ाने, विस्तार और विविधता लाने के लिए है। कंपनी ने मौजुदा शेयरधारकों से शेयर प्राप्त करने वाले प्रमोटरों द्वारा कंपनी के शेयरहोलिंडग पैटर्न में बदलाव के लिए

07 मई, 2024 के पत्र संख्या एस-71 / 16.31.065 / 2024-25 के माध्यम से पहले ही आरबीआई, चंडीगढ़ से पूर्व अनुमोदन इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण / आपित को रुचि की प्रकृति और आपित के आधार को बताते हुए, इस नोटिस

प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में डाक द्वारा या hsbleasing@gmail.com पर ईमेल द्वारा संबोधित किया जा सकता है। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी और अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप

एच एस बी लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए इंदरदीप सिंह

स्थानः चंडीगढ् दिनांक:10/05/2024 डीआईएन : 00879115

फॉर्म नंबर यूआरसी-2 अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन |कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार।

सूचना दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 उप–धारा (2) के अनुसरण में, दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी में रजिस्ट्रा को एक आवेदन किया गया है कि आरकेजी एसेट मैनेजमेंट एलएलपी एव सीमित देयता भागीदारी फर्म है कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया ज

2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रबंधन सलाहकार जैसे सलाहकारों के रूप में कार्य करना, और विभिन्न क्षेत्रों सामान्य प्रशासनिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, आर्थिक और औद्योगिक में सलाह सेवाएँ, परामर्श प्रदान करना और कॉर्पोरेट, पारिवारिक कार्यालयों निवेश / पूंजी / परिसंपत्ति प्रबंधक और सलाहकारों के अपतटीय निवेशक औ

समान फंड / योजनाएँ व्यवसाय को आगे बढ़ाना। 3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की

एक प्रति का निरीक्षण 506, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, सरस्वती विहार नई दिल्ली–110034 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। 4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाल कोई भी व्यक्ति इसके प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीत

रजिस्ट्रार, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिर्ल्ल ा 110019 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है। नोटिस, एव प्रति के साथ कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

दिनांक 10 मई 2024

आवेदक का नाम 1. अनीश गोयल 2. निर्मल गोयल



STERLING TOOLS LIMITED

Registered Office: UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI-110025 CIN: L29222DL1979PLC009668, Website.: www.stlfasteners.com Ph.: 0129-2270621-25, Email Id.: csec@stlfasteners.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

	(₹ in Lakhs except per share data)								
T)		STANDALONE			CONSOLIDATED				
SI. No.		Quarter	Ended	Year Ended		Quarter	Ended	Year E	nded
	Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	16,702.88	15,869.91	61,369.79	60,353.83	27,019.13	21,266.70	93,851.11	77,487.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	1,144.12	5,174.69	5,327.65	2,131.74	1,327.65	7,180.02	5,988.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	814.89	5,214.40	5,671.91	2,131.74	988.42	7,219.73	6,332.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,200.63	526.10	3,884.53	4,142.95	1,625.04	777.86	5,536.50	4,787.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	911.16	580.78	3,538.31	4,193.28	1,332.42	830.71	5,188.88	4,838.95
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Other Equity			42,442.02	39,424.50		50	43,990.37	39,322.26
8	Earnings Per Share (Rs. 2/- each)- (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	3.33 3.33	1.46 1.46	10.78 10.77	11.50 11.50	4.51 4.51	2.16 2.16	15.37 15.35	13.29 13.29

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and Financial Year ended on 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the company is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stifasteners.com).
- 2. The standalone & consolidated financial results of Sterling Tools Limited (the 'Company') for the quarter and Financial year ended 31 March 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th May 2024. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified Audit Opinion on these financial Results.
- 3. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), as specified under section 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended).
- 4. The Company is primarily in the business of manufacturing of fasteners (i.e. automotive components) which falls within a single business segment in terms of the Indian Accounting Standard 108, 'Operating Segments' and hence no additional disclosures have been furnished.
- The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of Rs. 2/- per Equity share of Face value of Rs. 2/- each for the Financial year 2023-24.

For and on behalf of the Board of Directors Sterling Tools limited

Anil Aggarwal Chairman & Managing Director Din No: 00027214

Date: 10th May, 2024 Place: Faridabad

Continue From Previous Page

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE beginning on page 238 of the RHP.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Offer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 25 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER BEELIA

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: +91-79-48407357 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com

Contact Person: Mr. Nikhil Shah

CIN: U67190GJ2020PTC114322

REGISTRAR TO THE OFFER

Bigshare Services Pvt. 1.td.

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel No: 022 - 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Babu Rapheal C

SEBI Registration Number: INR000001385

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

RULKA ELECTRICALS LIMITED Mrs. Keial Niken Shah A - 20, Shiva Industrial Estate Co. Ltd., Lake Road, Near

Tata Power, Bhandup West, Mumbai City, Maharashtra-400078, India. Tel. No.: +022 41276806, 022 49742572 E-mail: cs@replservices.com

Website: www.replservices.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.replservices.com. the website of the BRLM to the Offer at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Rulka Electricals Limited, Telephone + 022 41276806, 022 49742572; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91-79-48407357 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: 079 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, RULKA ELECTRICALS LIMITED

> Sd/-Rupesh Laxman Kasavkar Managing Director

Disclaimer: Rulka Electricals Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Mumbai on May 09, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.replservices.com, the website of the BRLM to the Offer at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

पंजाब नैशनल बेंक nod Janoiton darnua ..the name you can BANK upon! ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के लिये 60 दिवसीय सूचना

सर्कल सस्त्र कार्यालयः अलीगढ् कार्यालय : साई विहार, मदन पैलेस के सम्मुख, ग्राम तलारापुर कलां, रामघाट मार्ग, अलीगढ़, 202001, ईमेल : cs8183@pnb.co.in

आप सभी नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के धारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक ने आप में से प्रत्येक के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं और अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्ग सूचना को नीचे उल्लिखित तिथि पर स्पीड पोस्ट द्वारा अलग से भेजा गया है लेकिन नोटिस बिना सेवा के छुड़ा लिया गया। इसलिए आपमें से प्रत्येक को इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संयुक्त रूप र और गंभीर रूप से नीचे दी गई बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस लेने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर बैंक तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस प्रकाशन के विफल होने पर कौन सा बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नीचे उल्लिखित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह नोटिस बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति के साथ लेनदेन करें और इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन राशि और उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के शुल्क के अधीन होगा।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के संदर्भ में, आप इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेंगे। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऊपर उल्लिखित संपत्ति। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए इस वैधानिक निषेधाज्ञा / प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी भी कारण से, सुरक्षित संपत्ति व्यवसाय के सामान्य क्रम में बेची या पट्टे पर दी जाती है, तो बिक्री आय या प्राप्त आय बैंक में जमा / प्रेषित की जाएगी। आप ऐसी प्राप्ति / आय का उचित हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रियताओं से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी मानते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

क्रा.	शाखा	1. खाता संख्या, 2. सुविधा की प्रकृति	उधारकर्ताओं / गारंटरों	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण
सं.	कार्यालय	एवं राशि, 3. मांग सूचना की तिथि,	के नाम एवं पते	·
		4. बकाया राशि (रू.)		
1.	सिविल लाइंस अलीगढ़	खाते 1- 0511009301021658, 051100RF00000072 2 ओवरड्राफ्ट – रु. 40,09,854.68 और सावधि ऋण (एफआईटीएल) – रु. 62,843.00 3. 01.05.2024 4. रु. 40,72,697.68 (रुपये चालीस लाख बहत्तर हजार छह सौ सत्तानबे तथा अड़सठ पैसे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज 01.05.2024 से प्रभावी + अन्य शुल्क		नंबर—डीएम—25, पश्चिम— रोड 7.5 मीटर चौड़ी, उत्तर— प्लॉट नं.—डीएम—50, दक्षिण— प्लॉट नं.—डीएम—48
दिनांव	r : 01-05-	2024, स्वाज : अलीगढ़	(10 SICH 19 9/11 202001	प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब वैशवल बैंक

ग्जाब नेशनल punjab national bank ..the name you can BANK upon!

सर्किल सीआरएमडी अलीगढ कार्यालय पता साई विहार ग्राम तलाशपुर कलां रामघाट मार्ग अलीगढ़ 202001, coali_samd@pnb.co.in

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता के लिये 60 दिवसीय सूचना

1. कोसी जनरल एजेंसीज प्रोप. मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद रफीक (उधारकती), पताः— गली हरदेव गंज, पुराना जी.टी. रोड घंटा घर चौराहा कोसीकलां तह. छाता जिला मथुरा—यूपी 2- मोहम्मद रहीस पुत्र मोहम्मद रफीक, पता:- गली हरदेव गंज, पुराना जी.टी. रोड घंटा घर चौराहा कोसीकलां तह. छाता जिला मथुरा-यूपी

सईद पुत्र मोहम्मद रफीक (गारंटर / बंधककर्ता), पता:- गली हरदेव गंज, पुराना जी.टी. रोड घंटा घर चौराहा कोसीकलां तह. छाता जिला मथुरा-यूर्प

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना विषय : खाता संख्या 08085010000110 :टीएलद्भए मैसर्स कोसी जनरल एजेंसीज द्वारा बीओ : कोसीकलां मथरा से प्राप्त की गयीं क्रेडिट सविधाएं।

आप, मैसर्स कोसी जनरल एजेंसीज ने निम्नलिखित क्रेडिट सुविधायें प्राप्त की हैं :

एनपीए की तिथि के अनुसार शेष बकाया बयाज (एनपीए की तिथि 01.02.2017 सचना निर्गतन की तिथि के अनसार सं. (01.02.2017 अर्थात् मूलधन + ब्याज) से प्रभावी होकर 31.03.2024 तक) कूल बकाया रु. 21,32,924/- + दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी भावी ब्याज एवं अन्य शूल्क **⊽**. 13,70,233/-1. ₹. 9,00,000/-₹. 5,40,729/-ओडी

रु. 21,32,924/- + दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी भावी ब्याज एवं अन्य शुल्क किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, खाते/खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज की तिथि तक बैंक को देय राशि रु. 21,32,924 / – (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क 01.04.2024 से प्रभावी होकर पूर्ण भूगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज के साथ

है (जिसे आगे "प्रतिभूत ऋण" कहा जाएगा)।

उपयुक्त	सुविधाओं के तहत बकाया	मुरक्षित करने के लिए, आपने अन्य बाता के साथ—साथ, निम्नालाखत संपात्तया / पारसपात्तया के संबंध में प्रातभात हित सृजित किया है :
क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	ओडी	आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो मि. मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद रफीक के नाम पर, गली हरदेव गंज, पुराना जी.टी. रोड, घंटा घर चौराहा कोसीकलां
		तह. छाता, जिला मथुरा—यूपी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल— 16.00 वर्ग मीटर और सीमाएं निम्नानुसार हैं :— पूर्व— शंकर लाल की संपत्ति, पश्चिम— गली, उत्तर— शफी का घर, दक्षिण— उपमार्ग।

वर्तमान और भविष्य में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी स्टॉक, ऋणों और वर्तमान परिसंपत्तियों का दिष्टबंधक। हम, एतदुद्वारा आपसे इस सूचना की तिथि से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूरा भूगतान होने तक अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ रु. 21,32,924 /— (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र)

की राशि 01.04.2024 से प्रभावी भावी ब्याज तथा अन्य शूल्कों का भूगतान करने का आह्वान करते हैं। डिफॉल्ट होने पर, कानून के तहत उपलब्धानुसार बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (इसके बाद इसे "अधिनियम"

कहा गया है) 2002 की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। आपके द्वारा प्रतिभत ऋण का भगतान न करने की स्थिति में बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभत परिसंपत्ति / यों का विवरण इस प्रकार है :

आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो मि. मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद रफीक के नाम पर, गली हरदेव गंज, पुराना जी.टी. रोड, घंटा घर चौराहा कोसीकलां, तह. छाता, जिला मथुरा—युपी में स्थित है, जिसका

क्षेत्रफल- 16.00 वर्ग मीटर और सीमाएं निम्नानुसार हैं :-पूर्व— शंकर लाल की संपत्ति, पश्चिम— गली, उत्तर— शफी का घर, दक्षिण— उपमार्ग। वर्तमान और भविष्य में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी स्टॉक, ऋणों और वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।

. एतद्वारा आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के संदर्भ में, आप इस सचना की प्राप्ति के बाद, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रतिभृत परिसंपत्ति का बिक्री, पट्टा के माध्यम से

अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य अनक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरण नहीं करेंगे।

आपको यह भी सुचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार इस वैधानिक निषेधाज्ञा / प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी भी कारण से, प्रतिभूत परिसंपत्तियां व्यवसाय के

सामान्य अनुक्रम के अंतर्गत बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री आय या प्राप्त आय बैंक में जमा / प्रेषित / की जाएगी / भेजी जायेगी। आपको ऐसी प्राप्ति / आय का उचित हिसाब देना होगा। 'हम अन्य प्रतिभृत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

कृपया इस सूचना के अंतर्गत निर्गत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियताओं से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, आपको सभी लागतों एवं परिणामों के लिये उत्तरदायी ठहराते हुये आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जायेगा।

*यह सूचना, जैसा भी प्रकरण हो, डीआरटी / न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्गत की जाती है। *यह सुचना, डीआरटी / न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे / मुकदमा में बैंक के अधिकारों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना निर्गत की जाती है।

दिनांक : 19-04-2024, स्थान : अलीगढ कृते— पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य प्रबंधक

www.readwhere.com

Place : Mumbai

Date: May 10, 2024







